



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2010]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2011/आश्विन 27, 1933

No. 2010]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2011/ASVINA 27, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2415(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप कलेक्टर, पालनपुर, भूमि तल, जोरावर पैलेस, कलेक्टर आफिस, बनासकांठा, पालनपुर, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

3896 GI/2011

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए बनासकांठा जिले के भीतर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : बनासकांठा

तालुक का नाम : पालनपुर

क्रम सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/प्लॉट सं.	हेक्टर/वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)
1.	सेद्रासण	188		0.2732
		130		0.4302
		129		0.2919
		128		0.7454
		126/1	126	0.5684
		125/3	125	0.6902
		125/2		0.1317
		38		0.1023

(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)
	सेद्रासण	49		0.0255		जगाणा	666		0.4763
		50/1	50	0.6042			400	400पी1	0.3199
		50/2		0.0245			399/3	399/3पी1	0.3340
		51		0.7736			399/2	399/2पी1	0.2969
		52		0.0046			399/1		0.2668
		56/2	56	0.1961			397/1		0.3019
		56/1		0.0325			397/2		0.1575
		57/2	57	0.1725	3.	पालनपुर		1050/1	
		57/1		0.0499			1050	1050/2	1.2492
2.	जगाणा		581+582/1					1050/3 + 1050पी4	
		582	581+582/2	0.0816				1051+1052+1053	
			581+582/3					+1054 पी 2	
			581+582/4				1051	1051+1052+	
		583		0.3654				1053+1054 पी 3	0.1362
		584/1	584/1पी1	0.2641				1051+1052+	
			584/1पी2					1053+ 1054 पी 4	
		584/2		0.2298				1055पी1	
		595	595पी1	0.5486				1055पी2	
			595पी2					1055पी3	
		596	596पी1	0.3959			1055	1055पी4	0.6122
			596पी2					1055पी5	
			597+598/1पी1					1055पी6	
			597+598/1पी2					1055पी7	
			597+598/2पी1					1055पी8	
			597+598/2पी2					1058+ 1059/1	
			597+598/3					1058+ 1059/2	
		598	597+598/4पी1	0.4683			1058	1058+1059/3	1.1583
			597+598/4पी2					1058+1059/4	
			597+598/5पी1					1058+1059/5	
			597+598/5पी2				1064	1064/1	0.7101
			597+598/6पी1					1064/2	
			597+598/6पी2				1065	1065/1	0.3306
		599	599पी1	0.3101				1065/2	
			599पी2					1068/1/1	
		600		0.3102				1068/1/2	
		601/2		0.0853				1068/1/3	0.4856
		601/1		0.4619			1068	1068/1/4	
			602/पी1					1068/2/1	
		602	602/पी2	0.1857				1068/2/2	
			602/पी3						

(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)
पालनपुर			1069+1070/1					1090 से 1096/7	
			1069+1070/2					1090/पी8	
			1069+1070/3					1090 से 1096/14पी1	1.3281
			1069+1070/4पी1पी1					1090 से 1096/15	
1069			1069+1070/4पी1पी2	0.1583				1090 से 1096/18पी1	
			1069+1070/4पी2					1090 से 1096/18पी2	
			1069+1070/5पी1				1101		1.0608
			1069+1070/5पी2				1104		0.4968
			1069+ 1070/6पी1				1105		0.1839
			1069+1070/6पी2				173	173+174+176+	
			1071 से 1075/1					177+178पी1	0.1858
			1071 से 1075/2				190		0.2185
			1071 से 1075/3				191	191/2	0.2176
			1071 से 1075/4				193	193पी1	0.1974
			1071 से 1075/5					193पी2	
			1071 से 1075/6				192		0.1186
1071			1071 से 1075/7	1.0464			194		0.2812
			1071 से 1075/8				195	195पी1	0.1399
			1071 से 1075/9					195पी2	
			1071 से 1075/10				201		0.0012
			1071 से 1075/12पी1				196		0.1623
			1071 से 1075/13				197		0.4747
			1071 से 1075/14						
			1071 से 1075/15						
			1076/1						
			1076/2						
1076			1076/3	0.2100					
			1076/4						
			1076/5						
			1076/6						
			1090 से 1096/1						
			1090 से 1096/2पी1						
			1090/2/पी1						
			1090/2/पी3						
			1090/2/पी4						
			1090/2/पी6						
			1090/2/पी7						
1090			1090 से						
			1096/5+6पी2	1.3281					
			1090 से 1096/6पी1						
			1090 से 1096/6पी2						

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉरिडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2011

S.O. 2415(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Banaskantha in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose

under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector, Palanpur, Ground Floor, Jorawar Palace, Collector Office, Banaskantha, Palanpur, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of District: Banaskantha

Name of Taluk : Palanpur

Serial Number	Name of Village	Survey Number/ Block Number	Area to be Acquired (in Hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)
		3(a)	3(b)
1.	Sedrasana	188	0.2732
		130	0.4302
		129	0.2919
		128	0.7454
		126/1	126 0.5684
		125/3	125 0.6902
		125/2	0.1317
		38	0.1023
		49	0.0255
		50/1	50 0.6042
		50/2	0.0245
		51	0.7736
		52	0.0046
		56/2	56 0.1961
		56/1	0.0325
		57/2	57 0.1725
		57/1	0.0499

(1)	(2)	(3)	(3A)	(4)
2.	Jagana		581+582/1	
		582	581+582/2	0.0816
			581+582/3	
			581+582/4	
		583		0.3654
		584/1	584/1p1	0.2641
			584/1p2	
		584/2		0.2298
		595	595p1	0.5486
			595p2	
		596	596p1	0.3959
			596p2	
			597+598/1P1	
			597+598/1P2	
			597+598/2P1	
			597+598/2P2	
			597+598/3	
		598	597+598/4P1	0.4683
			597+598/4P2	
			597+598/5P1	
			597+598/5P2	
			597+598/6P1	
			597+598/6P2	
		599	599p1	0.3101
			599p2	
		600		0.3102
		601/2		0.0853
		601/1		0.4619
			602/p1	
		602	602/p2	0.1857
			602/p3	
		666		0.4763
		400	400p1	0.3199
		399/3	399/3p1	0.3340
		399/2	399/2p1	0.2969
		399/1		0.2668
		397/1		0.3019
		397/2		0.1575

(1)	(2)	(3)	(3A)	(4)	(1)	(2)	(3)	(3A)	(4)
3.	Palanpur		1050/1				1069+1070/5p2		
	Palanpur	1050	1050/2	1.2492			1069+ 1070/6p1		
			1050/3				1069+1070/6p2		
			1050/4				1071 to 1075/1		
	1051		1051+1052 +				1071 to 1075/2		
			1053 + 1054 P 2				1071 to 1075/3		
			1051+1052+				1071 to 1075/4		
			1053+1054 P 3	0.1362			1071 to 1075/5		
			1051+1052+				1071 to 1075/6		
	1053+		1054 P 4			1071	1071 to 1075/7		1.0464
	1055		1055p1				1071 to 1075/8		
			1055p2				1071 to 1075/9		
			1055p3				1071 to 1075/10		
			1055p4	0.6122			1071 to 1075/12p1		
			1055p5				1071 to 1075/13		
			1055p6				1071 to 1075/14		
			1055p7				1071 to 1075/15		
			1055p8				1076/1		
	1058		1058+ 1059/1				1076/2		
			1058+1059/2			1076	1076/3		0.2100
			1058+1059/3	1.1583			1076/4		
			1058+1059/4				1076/5		
			1058+1059/5				1076/6		
	1064		1064/1	0.7101			1090 to 1096/1		
			1064/2				1090 to 1096/2p1		
	1065		1065/1	0.3306			1090/2/p2		
			1065/2				1090/2/p3		
	1068		1068/1/1				1090/2/p4		
			1068/1/2				1090/2/p6		
			1068/1/3	0.4856			1090/2/p7		
			1068/1/4				1090 to		
			1068/2/1			1090	1096/5+6p2		1.3281
			1068/2/2				1090 to 1096/6p1		
	1069		1069+1070/1				1090 to 1096/6p2		
			1069+1070/2				1090 to 1096/7		
			1069+1070/3				1090/p8		
			1069+1070/4p1p1				1090 to 1096/14p1		
			1069+1070/4p1p2	0.1583			1090 to 1096/15		
			1069+1070/4p2				1090 to 1096/18p1		
			1069+1070/5p1				1090 to 1096/18p2		
					1101		1.0608		

(1)	(2)	(3)	(3A)	(4)	(1)	(2)	(3)	(3A)	(4)
	Palanpur	1104		0.4968		Palanpur	192		0.1186
		1105		0.1839			194		0.2812
		173	173+174+176+ 177+178p1	0.1858			195	195p1	0.1399
		190		0.2185				195p2	
		191	191/2	0.2176			201		0.0012
		193	193p1	0.1974			196		0.1623
			193p2				197		0.4747

[F. No. 2010/LML/12/4-Western Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1)